AICICI PRUDENTIAL\* MUTUAL FUND

### **ICICI Prudential Asset Management Company Limited**

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 1178 Days Plan H (the Scheme)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on August 12, 2020\*:

Name of the Scheme/Plans	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) <sup>\$#</sup>	NAV as on August 5, 2020 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan	ı - Series 81 - 1178 Days Pla	n H
Dividend	0.0500	12.4403
Direct Plan - Dividend	0.0500	12.5376

- \$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Scheme.
- # Subject to deduction of applicable statutory levy.
- or the immediately following Business Day, if that day is a Non Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Scheme would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of the Scheme:

The units of the Scheme are listed on BSE. The trading of units of the Scheme will be suspended on BSE with effect from closing hours of trading of August 9, 2020.

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be August 12, 2020.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date: August 6, 2020

**Authorised Signatory** 

No. 005/08/2020

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

**BSE Disclaimer**: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

# **Mrugesh Trading Limited**

CIN No.: L74999MH1984PLC034746 Registered Office: Warden House, 340 J.J. Road, Byculla, Mumbai- 400008 Tel:+91-022-23027900 | Fax: +91-022-23077231 Email: cosec@mrugeshtrading.com | Website: www.mrugeshtrading.com

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC") Recommendations of the Committee of Independent Director ("IDC") of Mrugesh Trading Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") in relation to the Open Offer made by Rajdarbar Capital Private Limited ("Acquirer") to the public Shareholders of Mrugesh Trading Limited

"MRUTR" or the "Target Company" or "TO Sr. No Particular		Report				
1	Date	August 06, 2020				
2	Name of the Target Company	Mrugesh Trading Limited				
3	Details of the Open Offer pertaining TC	The Open Offer is being made by the Acquirer for Acquisition up to 1,10,250 (One Lakh Ten Thousand Two Hundred & Fifty) Equity Shares of the face value of ₹ 10 each representing in aggregate 45% (Forty Five percent) of the of the total paid up and voting equity share capital of the Target Company at an Offer price of ₹ 12/- (Rupees Twelve only) per fully paid up Equity Share payable in cash pursuant to Regulation 3(1) & 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. Post receipt of SEBI comments via email dated May 29, 2020, Acquirer had requested SEBI for 45 days extension to comply with SEBI SAST Regulations considering the pandemic COVID-19 situation and confirmed to pay interest on delay payment to the public shareholders whose shares are validly tendered and accepted in the Open Offer, SEBI vide email dated July 10, 2020 approved the extension of 45 days and ordered to pay interest at 10% p.a. The interest computed at 10 (ten) per cent per annum on the Offer Price over such period is ₹ 0.18/- (Rupee Eighteen paise only) per equity share.				
4	Name(s) of the acquirer	Rajdarbar Capital Private Limited				
5	Name of the Manger to the offer	Fedex Securities Private Limited				
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Avni Shroff - Chairman     Krishna Jain - Member     Navneet Dammani - Member				
7	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	IDC Members are Non-Executive and Independent directors. The IDC Members A. Avni Shroff does not hold Equity Shares in the Target Company. B. Krishna Jain does not hold any Equity Shares in the Target Company. C. Navneet Dammani does not hold any Equity Shares in the Target company. D. They do not have any contact/ relationship with the Target Company's other directors				
8	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer or September 12, 2019.				
9	IDC. Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts/ relationships/directorship/ holding Equity shares of the Acquirer,				
10	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable				
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The member of the IDC believe that the open offer made to the public shareholders of Mrugesh Trading Limited at the offer price of ₹ 12 per fully paid Equity Shares of face value of ₹ 10 each is fair and reasonable and the open offer is in conformity with provision of SEBI (SAST) Regulation 2011. Post receipt of SEBI comments via email dated May 29, 2020, Acquirer had requested SEBI for 45 days extension to comply with SEBI SAST Regulations considering the pandemic COVID-19 situation and confirmed to pay interest or delay payment to the public shareholders whose shares are validly tendered and accepted in the Open Offer SEBI vide email dated July 10, 2020 approved the extension of 45 days and ordered to pay interest at 10% p.a. The interest computed at 10 (ten) per cent per annum on the Offer Price over such period is ₹ 0.18/- (Rupee Eighteen paise only) per equity share.				
12	Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the Public announcement dated September 12, 2019, the Detailed Public Statement dated September 19, 2019 and Draft Letter of Offer dated September 26, 2019 and Letter of Offer dated August 04,2020. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations:  The Equity shares of TC infrequently traded within the meaning as provided in regulations 2(j) of Takeover Regulations.  As per the Equity Share Valuation report dated on September 11,2019 of Mrugesh Trading Limited given by CA Sudhir Kumar (Membership No. 501230) proprietor of Sudhir Kumar & Company, Chartered Accountants having office at Shop No- FF -443, Ansal Sumanglam Building, RDC, Ra Nagar, Ghaziabad – 201001, the fair value of equity shares of ₹ 12/- (Rupees Twelve only) plus interest as mentioned above per share is higher than price calculated after considering the parameters as specified under Regulation 8(2) of Takeover Regulations.				

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this

statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise,

APM TERMINALS Lifting Global Trade. **GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED** 

Registered Office: Pipavav Port, At Post Rampara-2, Tal. Rajula, Dist. Amreli, Gujarat-365 560. CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413 Website: www.pipavav.com Email: investorrelationinppv@apmterminals.com

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(III hupees willion							es million	
	STANDALONE			CONSOLIDATED				
Particulars	3 months Preceed ended 3 months ended ende		Corresponding 3 months ended in the previous year	ended	3 months ended	Preceeding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
	30/06/2020	31/03/2020	30/06/2019	31/03/2020	30/06/2020	31/03/2020	30/06/2019	31/03/2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	1,590	1,619	1,776	7,354	1,590	1,619	1,776	7,354
Net Profit/(Loss) from Ordinary activities after Tax (after extra ordinary items)	464	479	564	2,924	482	541	550	3,194
Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10 per share )	4,834	4,834	4,834	4,834	4,834	4,834	4,834	4,834
Other Equity as per the balance sheet of previous accounting year								
Earnings per share (before and after extra ordinary items) (of Rs. 10/- each (not annualised)			)2.					
Basic:	0.96	0.99	1.17	6.05	1.00	1.12	1.14	6.61
Diluted:	0.96	0.99	1.17	6.05	1.00	1.12	1.14	6.61
Note: The above is an extract of the de	etailed form:	at of Quarter	end Financial	results filed	L with Stock	Exchange ur	nder Regulation	33 of SE

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter end Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of Sebi-(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter end financial results is available on the Stock Exchange websites (www.besindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website, www.pipavav.com

Place: Mumbai **Date:** 6<sup>th</sup> August 2020 **Jakob Friis Sorensen Managing Director** 

For Gujrat Pipavav Port Limited

INDUSTRIES LTD. CIN: L24111UR1985PLC015063

Regd. Off.: Sohan Nagar, P.O. Charubeta, Khatima-262308, Distt, Udham Singh Nagar, Uttarakhand Phone: (05943) 250153-57, Fax: (05943) 250158, Website - www.esterindustries.com, Email - investor@ester.in

EXTRACT OF AN UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2020

Corresponding

Sr. No	Particulars	Current Quarter ending 30.06,2020	3 months ended in the previous year 30.06.2019	Preceeding quarter ending 31.03.2020	Previous Year ending 31.03.2020		
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited) (as explained in Note 2)	(Audited)		
1	Total income from operations	18,855.03	28,407.69	25,387.39	103,870.15		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extra ordinary items)	3,936.30	3,760.08	3,977.64	13,856.64		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	3,936.30	3,760.08	3,977.64	13,856.64		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	2,938.08	2,394.65	3,691.15	9,949.87		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	2,929.62	2,371.72	3,663.26	9,874.35		
6	Equity Share Capital	4,169.69	4,169.69	4,169.69	4,169.69		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (Other Equity)	36,643.57 as on 31st March, 2020					
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic (in Rs.): Diluted (in Rs.):	g and discontinued operations) Rs.): 3.52 2.87			11.93 11.93		

NOTES:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website viz. www.esterindustries.com

Figures for quarter ended 31st March, 2020 represents the balancing figures between the audited figures for the financial year ended 31st March, 2020 and published year to date reviewed figures upto the third quarter ended 31st December, 2019.

For Ester Industries Limited

Place: Gurugram Date: August 5, 2020 Arvind Singhania Chairman & CEO

SALE NOTICE LOHA ISPAAT LIMITED -In Liquidation

Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailashl, New Delhi -110048. Email:assetsale1@aaainsolvency.in,anilgoel@aaainsolvency.com Mob.- 8800865284 (Puneet Sachdeva) E-Auction

Liquidator: CA Anil Goel

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction:31st August, 2020 at 3.00 pm to 5.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by Loha Ispaat Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by th Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated April 26, 2018 (order communicated on June 26, 2018). The sale will be done by the

undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.net.			INK.		
Asset	Block	Floor Price	EMD Amount	Incremental Value	
<b>Plant &amp; Machinery</b> at Plot No. A-79, MIDC, Taloja Industrial Estate, Village Pendhar, Taluka Panvel, District Raigad	Α	1.40 Crore	2 Lakh	1 Lakh	
<b>Plant &amp; Machinery</b> at Plot No. A-69, MIDC, Taloja Industrial Estate, Village Pendhar, Taluka Panvel, District Raigad	В	1.50 Crore	2 Lakh	1 Lakh	
<b>Plant &amp; Machinery</b> at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka Khalapur, District Raigad		32 Crore	25 Lakh	10 Lakh	
<b>Land and Building&amp; Shed</b> at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka Khalapur, District Raigad		16 Crore	25 Lakh	10 Lakh	
<b>Land, Building alongwith Plant &amp; Machinery</b> at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka Khalapur, District Raigad		48 Crore	50 Lakh	20 Lakh	
Proc. 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 197	70.7				

Terms and Condition of the E-auction are as under

1.E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/s Eprocurement Technologies Limited (Auction Tiger).

2. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Term and Conditions of online auction sale are available onwebsite https://aaa.auctiontiger.net. Contact: Mr. Tilak Maratha at +91-6351896834/07961200580/8 & tilak@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net(On going to the link https://aaa.auctiontiger.net interested bidders will have to search for the mentione company by using either one of the two options, (i) Company's name (Loha Ispaat Limited), or by, (ii) State and property type). 3. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity an

water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Puneet Sachdeva: +91-8800865284. 4.For the purpose of participating in the auction, thee intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account namely"Loha Ispat Limited- in Liquidation", Account No.:9812794985, Kotak Mahindra Bank, IFSC Code: KKBK0004611

S-214, Ground Floor and Basement, Panchsheel Park, New Delhi-110017, or through DDdrawn on any Scheduled Bank in the name of "Loha Ispat Limited- i

Liquidation" or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document. 5. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E- Auction along with Se attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit an Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexures car be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 28.08.2020. Interested bidders will have to upload their KYC documents along with the EMD submission details on

https://aaa.auctiontiger.netbefore 5:00 PM of 28.08.2020. 6. The Name of the Eligible Bidders will be identified by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (https://aaa.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders. 7. The bidding will start from a floor price, in case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically ge extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful

Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator. The highest bid does not entitly

the bidder to claim as a successful bidder. The liquidator decision in this case would be final. 8. Upon the communication by the Liquidator to the successful bidder through via e-mail/any other electronic mode, the successful bidder shall be required to further deposit 10% of the bid amount within 2 working days of the e-auction. Failure to deposit such amount shall result in the forfeiture of amoun deposited as initial EMD as per Point 4 and the bidder with the 2 nd highest bid in value shall be declared as the successful bidder thereafter. The process shall continue until the payment of further deposit by the bidder. The initial EMDs paid by the remaining bidders shall be refunded within a period

9.Subsequent to payment of the further deposit, thee Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount EMD Amount) within 30 days from the date of issuance of the LOI by the Liquidator, wherein the amount deposited as initial EMD and further EMD shall be adjusted towards the final sale consideration and the successful bidder shall be required to pay an adjusted amount of balance sale consideration. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.

10. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction. 11. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thered

from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. 12.The Liquidator reserves the right to give priority to bids for auction of the Consolidated Blocks (Block E) for Land and Building alongwith Plant and Machiner over the bids received for separate blocks.

13 After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name. 14. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and bankruptcy code, 2016 and regulations made thereunder.

15. The liquidator shall provide all assistance necessary for the conduct of due diligence by interested buyers.

16. The interested Bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room") established and maintained by the Company acting through the Liquidator i order to conduct a due diligence of the business and operations of the Company. The interested bidder(s) shall be provided access to the information in the Data Room until the E-Auction Date. The access to, and usage of the information in the Data Room by the interested bidder(s) shall be in accordance with the rules as may be set forth by the Liquidator from time to time.

17.E-auction date & Time: 31.08.2020 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5min)

Liquidator in the matter of Loha Ispaat Limite IBBI (Regn. No- IBBI/IPA-001/IP-00118/2017-18/10250 Date: 06.08.2020 Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash I, New Delhi -11004 Place: New Delhi Email:assetsale1@aaainsolvency.com,anilgoel@aaainsolvency.com Contact No.: Mr. Puneet Sachdeva: +91-880086528

SAMYAK CORPORATION LIMITED (Formerly Known as Green Commercial Limited) CIN: L51219MH1985PLC265766 Room No. 18, Kailash Darshan, Hansoti

Mumbai City Maharashtra- 400086 Website: www.greencommercial.in, Email id: roc.greencommercial@gmail.com

Lane, Cama Lane, Ghatkopar Mumbai,

Pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the board of directors of the company will be held on Friday, 14" August 2020 at 11:30 A.M. Inter alia, to

consider and approve the Standalone

Unaudited Financial Results of the company for

The Intimation is also available on the website of the company (www.greencommercial.in) and on the website of the Stock Exchange (https://www.msei.in/)

the Quarter ended 30th June, 2020.

For Samyak Corporation Limited

Kalpak Ajay Vora Place: Mumbai Managing Director Date: 06.08.2020 DIN: 01556520

SPACEAGE PRODUCTS LIMITED CIN: L34300MH1980PLC267131

B-702, Neelkanth Business Park, Near Vidyavihar Bus Depot, Vidyavihar (West) Mumbai City, Maharashtra-400086 Website: www.spaceageproducts.co.in, Email id: roc.spaceage@gmail.com

Pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the board of directors of the company will be held on Friday, 14th August 2020, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the company for the Quarter ended 30° June 2020.

The Intimation is also available on the website of the company (www.spaceageproducts.co.in) and on the website of the Stock Exchange (https://www.bseindia.com/) For and on behalf of

Spaceage Products Limited Bhavesh Prabhudas Vora Place: Mumbai Managing Director Date: 06.08.2020 DIN: 06814823

INDIA GLYCOLS LIMITED Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazour Road. Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Ultarakhano

Phone: 05947-269500, Fax: 05947-275315, E-mail: compliance officer@indiaglycols.com Website: www.indiaglycols.com CIN: L24111UR1983PLC009097 NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the

Securities and Exchange Board of India (Listin) Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held o Thursday, 13th August, 2020 at Noida, Utta Pradesh to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results (Standaloni and Consolidated) of the Company for the first quarter ended 30th June, 2020.

The information is also available on the Company's website at www.indiaglycols.com and the website of the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed viz. BSE Limiter (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) For India Glycols Limited

Place: Noida, U.P. Date: 06-08-2020 Company Secretary

SLESHA COMMERCIAL LIMITED (Formerly known as Shivam Techno Projects Limited)

Ankur Jain

CIN: L74140MH1985PLC266173 Room No. 18, Kailash Darshan, Hansoti Lane, Cama Lane, Ghatkopar Mumbai, Mumbai City, Maharashtra-400086

Website: http://www.shivamtechno.com/. NOTICE Pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the board of directors of the company will be held on Friday,

14" August, 2020 at 11:00 A.M, inter alia, to

consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the company for the Quarter ended 30" June 2020. The Intimation is also available on the website of the company (www.shivamtechno.com) and on the website of the Stock Exchange

(https://www.msei.in/) For Slesha Commercial Limited

Nidhi Vora Kalpak Place: Mumbai Managing Director Date: 06.08.2020 DIN: 05160902

TV VISION LTD A SRI ADHIKARI BROTHERS ENTERPRISE CIN: L64200MH2007PLC172707

Regd Office: 4th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex, New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053 E-mail: cs@tvvision.in; Website: www.tvvision.in

> Tel.: 022-40230000; Fax: 022-26395459 NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, August 12, 2020, through electronic mode, inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020 The information is also available on the website of the Company viz www.tvvision.in and is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed.

For TV Vision Limited

Date: August 6, 2020

Place: Mumbai

Shilpa Jain Company Secretary & Compliance Officer

Keva)

### S H KELKAR AND COMPANY LIMITED CIN No: L74999MH1955PLC009593

Registered Office: Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400002 Corporate Office: Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund (West), Mumbai - 400080 Tel No: +91222164 9163 | Fax No: +91222164 9766 Website: www.keva.co.in | Email Id: investors@keva.co.in

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 64th Annual General Meeting ("AGM") of S H Kelkar and Company Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 01 2020 at 4.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as contained in the Notice convening the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 4/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "MCA and SEBI circulars"), has permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA and SEBI circulars and relevant provisions of the Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

Attending AGM through VC/OAVM

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") e-voting platform. Members may access the same at www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote evoting credentials. The link for VC will be available in shareholder/members login where the EVSN of the Company will be displayed. Further details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM to be held through VC/OAVM will be provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

Electronic Dissemination of Notice and Annual Report:

The AGM notice along with Annual Report for FY 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participants in compliance with the MCA and SEBI circulars.

Members are requested to register their e-mail ids and mobile numbers with their depositories through their depository participants.

AGM Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at www.keva.co.in websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchanges of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com/respectively, and on the website of CDSL/www.evotingindia.com.

E-voting: The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set

**Anil Goe** 

Place: Mumbai

Date : August 06, 2020

out in the AGM Notice through remote e-voting/e-voting during AGM. If Member's email id is already registered with the Company/Depositories, log in details for e-voting would be sent on Member's registered e-mail ID. In case Members have not registered their e-mail Id with the Company/ Depositories, the detailed procedure of voting by Members who have not registered their e-mail Id will be provided in the AGM Notice.

The AGM Notice along with the Annual Report 2019-20 will be sent to the Members on their

The Members may please note that interim dividend declared during the financial year ended March 31, 2020 is proposed to be confirmed as final dividend for financial year

registered e-mail lds in compliance with the applicable MCA and SEBI circulars. By Order of the Board of Directors of S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN: L74999MH1955PLC009593 Deepti Chandratre

Company Secretary

financialexp.epap.in

13 Details of Independent Advisor

14 Any other matters to be highlighted None

(if any)

Place: Mumbai

Date: August 06, 2020

and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code.

For the behalf of Committee of Independent Directors of

Chairman – Committee of Independent Directors

**Mrugesh Trading Limited** 

Avni Shroff

# नैनीताल से वर्चुअल कान्फ्रेंस-कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत

सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा संवाद किया

उत्तर उजाला ब्यूरो

कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मीडिया के माध्यम से सीधा संवाद वर्चुअल सम्मेलन संयोजक सूर्यकान्त वर्चुअल किया। कार्यकर्ताओं से हुए संवाद में धस्माना ने किया। कान्फ्रेंस-कार्यकर्ता संवाद की प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह, शुरूआत आज नैनीताल जनपद से नेता प्रतिपक्ष डा. इन्दिरा हृदयेश, पूर्व हुई। ज्ञातव्य हो कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री हरीश रावत, उपनेता प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना कमेटी द्वारा कोरोना महामारी के प्रतिपक्ष करण महरा, सहप्रभारी महामारी के कारण लम्बे समय से



**CORRIGENDUM/Date Extension Notice** Refer this office Advertisement Ref. No. 378/BRIDCUL/-6(7)/20 Dated 15.07.2020 published in newspaper on 16.07.2020 for the 'Construction of Campus Development & Beautification works

(Parking, Lawn and Painting) at Doon University, Dehradun". Due to some unavoidable circumstances, the last date of bid submission for the above said tender is extended upto 20.08.2020, 1500 Hrs. The details of e-tender of above said work can be obtained हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो एप 2024 के चुनाव से पूर्व हमें 2022 from website http://uktenders.gov.in. Project Manager

### कार्यालय नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम दिनांक 06-08-2020

पत्रांक 604/

### निविदा सूचना

नगर निगम हल्द्वानी -काठगोदाम के ट्रचिंग ग्राउण्ड में कूड़े के निस्तारण हेतु पौकलैण्ड मशीन मय आपरेटर किराये पर लेने के लिये दिनांक 07-08-2020 से 13-08-2020 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक दर निविदा आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा फार्म/ शर्तें नगर निगम हल्द्वानी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की ज सकती है। इच्छुक निविदादाता/ फर्मों द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार दिनांक 13-08-2020 को अपरान्ह 1.00 बजे तक अपनी निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में डाला जायेगा, तथ प्राप्त निविदाओं को दिनांक 13-08-2020 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदा समिति के समक्षा खोला जाएगा। उक्त निविदा सम्बन्धी अधिक जानकारी हेतु नगर निगम हल्द्वानी के कार्यालय कक्ष संख्या 32 में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

सी.एस. मर्तोलिया नगर आयुक्त

डा. जोगेन्द्र सिंह रौतेला

नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम ( नैनीताल )



उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) कार्यालय अधिशासी अमियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), 79 हीरा नगर, निकट उत्थान मंच, म्दानी (नैनीताल), कारपोरेट आईडेन्टोटी संख्याः U40109UR2001S6C025867, दूरमाष : 05946–253040

### विद्युत बाधित सूचना

विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), हल्द्वानी के समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित 33 / 11 के.वी. उपसंस्थानों पर सी.टी.पी.टी. बदलने का कार्य प्रस्तावित किया गया है, उक्त कार्य के दौरान निम्न विवरणानुसार विद्युत आपूति पूर्णतः एवं आंशिक रूप से बाधित रहेगी। क्र. आपूर्ति बन्द रहने | 33/11 के.वी. | बाधित 11 के.वी. | प्रभावित क्षेत्र

	011/11/11/10/1	007 11 45.41.	411-101 11 17.11.	2 11140 412
₩.	का दिनांक / समय	विद्युत उपसंस्थान का नाम	फीडर का नाम	
1	दि. 08.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक	फूलचौड़		11 के.वी. धनपुरी, पंचायत घर, संगम विहार एवं ए वी आर फीडर से संबंधित क्षेत्र।
2	दि. 09.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक	फुटकुऑ	गन्ना सेंटर, बेलबाबा 2, जय श्री राम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम	11 के.वी. गन्ना सेंटर, बेलबाबा 2, जय श्री राम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम फीडर से संबंधित क्षेत्र।
3	दि. 10.08.2020 कमलुआगांजा व प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक		कुसुमखेड़ा, लामाचौड़, कठघरिया, मुखानी तथा ऊँचापुल	11 के.वी. कुसुमखेड़ा, लामाचौड़, कठघरिया, मुखानी तथा ऊँचापुल फीडर से संबंधित क्षेत्र।
4	दि. 11.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक			11 के.वी. फतेहपुर, दमुवाढुंगा, ट्यूबवैल ।, ट्यूबवैल ॥, बच्चीनगर, ब्लॉक तथा बिठौरिया फीडर से संबंधित क्षेत्र।
5	दि. 12.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक		बेलबाबा, खन्ना फार्म, जज फार्म, देवलचौड़ तथा तल्ली हल्द्वानी	11 के.वी. बेलबाबा, खन्ना फार्म, जज फार्म, देवलचौड़ तथा तल्ली हल्द्वानी फीडर से संबंधित क्षेत्र।
6	दि. 13.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक	धौलाखेड़ा	वर्ल्ड बैंक, हल्द्वानी, सोयाबीन, इण्डस्ट्रीयल, हल्दूचौड़, हाथीखाल तथा डुंगरपुर	11 के.वी. वर्ल्ड बेंक, हल्द्वानी, सोयाबीन, इण्डस्ट्रीयल, हल्दूबौड़, हाथीखाल तथा बुंगरपुर फीडर से संबंधित क्षेत्र।
7	दि. 14.08.2020 प्रातः 10:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक	लालकुऑ	नगर, हल्दूचौड़ कार रोड, घोड़ा	11 के.वी. शास्त्रीनगर, गॉधी नगर, हल्दूचौड़ कार रोड, घोड़ा नाला तथा बमेठा बंगर फीडर

अतः विद्युत सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त जनता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवागमन ना करते हुए अपनी सामाग्री की सुरक्षा करें साथ ही अपने नन्हे मुन्ने बच्चों एवं पालतु पशु को कार्य स्थल पर ना जाने दें। उक्त कार्य की जटिलता को देखते हुए आप सभी को अवगत कराना है कि उपरोक्त दिवस की समयावधि में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, जिस हेतु विद्युत विभाग को सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। अधिशासी अभियन्ता No.: 367/EE(CM)/UPCL/A-2 Dated : 06.08.2020

बंगर

राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं. 1912) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन मुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए। विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं. 1800 180 4185/फैक्स संख्या—0135—2760911 पर दें।)

संवाद करने के उद्देश्य से जिला प्रकाश जोशी तथा अनुसूचित जाति स्तरीय वर्चअल सम्मेलन करने का विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकमार. निर्णय लिया है उसी के तहत आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भुल्लर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नैनीताल जनपद एवं हल्द्वानी सरिता आर्य, पूर्व मंत्री हरीश महानगर से कार्यक्रम की शुरूआत दुर्गापाल ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम **देहरादुन।** उत्तराखण्ड प्रदेश करते हुए कार्यकर्ताओं से सोशल का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं

> वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से सम्पर्क करने का प्रयास किया है।

प्रीतम सिंह ने कहा कि देश एवं प्रदेश की भाजपा सरकारें कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन पर चौपट हो चुका है जिसके चलते इस उजागर करेगी। पर आधारित लोग बेरोजगार हो चुके नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा मोदी बनाम कांग्रेस बनाना चाहती है किया था भाजपा सरकार ने उन्हें भी जबिक यह फैसला सर्वोच्च का प्रयास करना चाहिए। बन्द कर दिया। यहीं नहीं उन्होंने न्यायालय का है तथा कोई भी कोरोना काल में लोगों तक पहुंचाई का निर्माण करवाती। जा रही सहायता के लिए भी उनके

हुए कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा की नकल तो की पर न उसके पास कार्यकर्ता हैं और न जनता कांग्रेस की कोई बात सुनने को तैयार है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी डा. देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस की वर्चुअल रैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फ्लॉप

कांग्रेस देख रही मुंगेरी लाल का सपना : भाजपा

देहरादून। भाजपा ने कांग्रेस की वर्चुअल रैली को फ्लॉप शो बताते

शो था। कांग्रेस ने भाजपा की वर्चुअल रैलियों की नकल तो की पर कार्यकर्ताओं के भारी अभाव व जनता की उदासीनता के कारण यह प्रयास फ्लॉप रहा। अगर कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है तो वह इसका अधिकारिक डाटा सार्वजनिक करे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अगले चुनाव में प्रदेश में सत्ता में आने का जो दावा कर रहे हैं वह मुंगेरी लाल के सपने से अधिक नहीं है। प्रदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में भाजपा मजबती से काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पहले अपने बिखरे हुए घर और विधायक संख्या की दुष्टि से वर्तमान स्थिति को ही बचा ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को प्रदेश में हो रहे विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे तो यह उसकी नजर का दोष है, पर जनता जनार्दन सब देख रही है और भाजपा के साथ है।

आधारित रोजगार है तथा आज तैयार कर जनता के बीच जाकर सराहनीय है। उन्होंने यह भी सुझाव

राज्य के सभी जनपदों के जिला

प्रदेश का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से भाजपा सरकार की विफलताओं को दिया कि पार्टी को वर्चुअल रैलियों का भी आयोजन करने की प्रदेश प्रभारी अनुग्रहनारायण सिंह आवष्कता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के वापस आने के कारण लॉच किया था उसके माध्यम से के चुनाव के लिए मैदान तैयार सभी वरिष्ठ नेतागणों का स्वागत

विकास की योाजनाओं को शुरू का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है त्रिवेन्द्र सरकार बनाम कांग्रेस बनाने पहुंचाया जायेगा। वर्चुअल सम्मेलन यह भी कहा कि कांग्रेसजनों द्वारा सरकार सत्ता में होती वह भी मन्दिर ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए हुसैन, बीडी खोलिया, अन्नु आर्य,

कहा कि पूरे कोरोना काल में गुरूप्रीत सिंह, मीनू बिष्ट, भोला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकारे पूरी तरह विफल हुई दत्त भट्ट, राजेन्द्रसिंह बिष्ट, गुणवन्त खिलाफ राजनैतिक विद्वेष की प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवायें चौपट सिंह, किरन डालाकोटी आदि ने भी भावना से झूठे मुकदमे लादे गये। कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए हो चुकी है, बाहर से आने वाले संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने आयोजित की जा रही वर्चुअल लोगों को जहां क्वारेंटाइन किया एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के वाले दिनों में भाजपा सरकारों की सम्मेलनों की सराहना करते हुए गया है वहां गंदगी के अंबार लगे सभी ब्लाक एवं नगर अध्यक्षों ने विफलता के खिलाफ एक रोडमैप कहा कि पार्टी का यह निर्णय हुए हैं तथा उनके लिए सरकारी हिस्सा लिया।

बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेती राज्यमंत्री रेखा आर्य

राजकीय शिशु सदन, बालगृह

लित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा दिया गया। भावनाओं को जागृत क्षेत्र की एक फैक्टी के 17 लोगों की

बैठक की। उन्होंने कहा की महिला) करने के सम्बन्ध में बच्चों में किस, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है।

कल्याण विभाग द्वारा समाज की प्रकार सकारात्मक परिवर्तन किया संऋमितों को आइसोलेट कर दिया

ऐसी महिलाओं, बालिकाओं और जा सकता है, इसके सम्बन्ध में गया है। थाना भगवानपुर में एक और

बालकों के बारे में जो समाज की संवेदनशीलता एवं मनोवैज्ञानिक तेष्जपर पुलिस चौकी में तैनात एक

मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाये हैं, उन प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव

सबके सम्बन्ध विशेष संवेदनशीलता लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने आने की पुष्टि हुई है। अब तक 18

दिखाई जाय। निराश्रित एवं अनाथ की सम्भावनाओं पर विचार किया पुलिसकर्मियों को कोरोना की पुष्टि

महिला एवं बच्चों के सम्बन्ध में गया।अनाथ बच्चों के लिए जनपदों के बाद आइसोलेशन में भेज दिया।

चलाई जाने वाली योजनाओं की में प्रायोजित प्रोग्राम की समीक्षा की वहीं क्षेत्र में एक फैक्ट्री के श्रमिक की

जानकारी का व्यापक प्रचार– गयी, 90 से 60 बच्चों के लिए 4 दिन पूर्व रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

बैठक में कोरोना काल के दौरान बागेश्वर एवं अल्मोड़ा ने बेहतरीन रहा था। तभी से इस फैक्ट्री के

विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तरकाशी, कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही

की भी समीक्षा की गयी। विभिन्न हरिद्वार का संतोषजनक प्रगति न थी। जिसमें 15 लोगों को कोरोना

जनपदों द्वारा सैनिटाईजिंग, फागिंग प्राप्त होने पर 40 बच्चों का लक्ष्य पॉजिटिव रिपोर्ट आयी है।

एवं दवाओं का छिड़काव, मास्क दिया गया है। इस अवसर पर सचिव सामदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ.

बनाने का कार्य एवं आईसोलेशन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विक्रांत सिरोही ने बताया कि

वार्ड बनाये जाने की, इसके विकास, सौजन्या, अपर सिचव/ संक्रमित आए लोगों को आइसोलेट

अतिरिक्त कोविड के रोकथाम के निदेशक, मेजर योगेन्द्र यादव, सी.पी. कर दिया गया है। साथ ही उनके लिए योगा कार्यक्रम की जानकारी ओ मोहित चौधरी, जिला प्रोबेशन संपर्क में आने वालों के सैंपल लेने

स्तर पर कोई व्यवस्था नही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इंतजामों का यह आलम है कि वह कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है जो राज्य सरकार की प्रबन्धन नीति की विफलता है। उन्होंने विधायकों की वेतन कटौती पर बोलते हुए कहा कि सरकार की संवादहीनता के कारण ऐसा हुआ है जिसके सम्बन्ध में मेरी विधानसभा अध्यक्ष से बात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस मामले में अध्यादेश लाना हास्यास्पद है।

पुर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कहा कि हमारी लडाई दो रास्तों पर है एक कोरोना से तथा एक जनहित में प्रदेश सरकार से, जनता कांग्रेस पार्टी से बहुत आशान्वित है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धरमाना ने कहा कि हम सडक पर भी उतरेंगे और प्रदेश के अंतिम छोर के कार्यकर्ता तक संचार तकनीक के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।

जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल एवं महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने बेरोजगारों की लाईन और लम्बी हो कांग्रेस पार्टी के पास पहुंची लोगों करने की जरूरत है। उन्होने कहा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चुकी है तथा राज्य सरकार के पास की समस्याओं का कांग्रेस पार्टी के कि भाजपा चाहती है कि नेतृत्व द्वारा जो भी निर्देश दिये इनके रोजगार की कोई व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने समाधान करने का उत्तराखण्ड का विधानसभा चनाव जायेंगे उनका पालन किया जायेगा पार्टी द्वारा सत्ता में रहते हुए जिन कि आज भाजपा राम मन्दिर निर्माण परन्तु कांग्रेस को चाहिए कि इसे विफलताओं को जनता तक को खप्टी बिष्ट, पुष्कर दुर्गापाल, नेता प्रतिपक्ष डा. इन्दिरा हृदयेश महेश शर्मा, बीना जोशी, जाकिर

अधिकारी विक्रम लाल नखोलिया

दो पुलिसकर्मियों सहित 17

फैक्टीकमी कोरोना पॉजिटिव

रुड़की। दो पुलिस कर्मियों समेत

आदि अधिकारी मौजद थे।

त्रिलोक भंडारी आदि शामिल थे।

प्रशिक्षण तिथि निरस्त

बैरती ( अल्मोड़ा )। क्षेत्र के राजकीय इंटर कालेज महाकालेश्वर में सेवारत शिक्षकों का दो दिवसीय आनन्दम पाठ्यचर्या प्रशिक्षण शुरु हो गया है। संदर्भदाता प्रधानाचार्य गोपाल सिंह घुघत्याल के दिशा-निर्देशन में शिक्षक यहां आनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं। कालेज में सेनेयइजेशन एवं सामाजिक दूरी तथा मास्कका प्रयोग करते हुए प्रतिभागी शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में राइं कालेज महाकालेश्वर, राइंका चित्रेश्वर, राउमावि महतगांव, राजूहा कनरै, थनीगांव, टिम्टा, आगरनौला एवं सिरोली के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं।

भिकियासैंण। अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पूजन के अवसर पर

यहां विभिन्न हिन्दू, सामाजिक संगठनों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी

व्यक्त कर घरों और मंदिरों में दीये जलाये व शोभा यात्रायें निकाली। यहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिवार, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व संघ

स्वयसेवकों ने विद्यालय में हनुमान चालीसा पाठ कर मिष्ठान वितरण

किया तथा बाबा बाड्नाथ सोसायटी ने बाजार में शोभा यात्रा निकाली,

कार्यकर्ताओं ने पूजा कर राम मंदिर शिलान्यास पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त

आतिशबाजी की गयी। आसपास के क्षेत्रों सनणा, बासोट, नौला आदि में

भी ग्रामीणों ने घरों में दीये जलाये. शोभायात्रा, बाइक रैली निकली और

प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, डॉ. मुकेश गुप्ता, शंकर फुलारा, दिनेश

गीतांजिल, जगत बिष्ट, बाबा बाइनाथ सोसायटी के बालम नाथ, सोन्

अग्रवाल, बालम सिंह बिष्ट, उर्बादत्त सत्यबली, मोहित अग्रवाल, महिला

पतंजिल योग सिमिति की लीला बिष्ट, भारती देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष

बरेली। इज्जतनगर मंडल के सवारी एवं माल डिब्बा विभाग के लिए

53 तथा डीजल शेड के लिए 36 अप्रेटिंस एक्ट के अंतर्गत अभ्यर्थियों

की सूची तैयार की जा चुकी है। प्रशासनिक कारणों से इन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण सम्भव नहीं हो पा रहा है। निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि 10

अगस्त निरस्त की गयी है। रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार अगली

रिपोर्टिंग तिथि निश्चित हो जाने के पश्चात घोषित की जाएगी।

शिक्षको का आनलाइन प्रशिक्षण शरू

महिला पतंजिल योग समिति ने सुन्दरकाण्ड का पाठ किया,भाजपा

आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। इन कार्यक्रमों में कुलदीप गयाल

घुघत्याल, डॉ. प्रमोद नैनवाल, हरेन्द्र मावड़ी, डॉ. अभिलाषा गुप्ता,

की तथा घरों, प्रतिष्ठानों में दीये जलाये। बडियाली तिराहे पर

### गैराड में मोटर मार्ग का होगा विस्तार

बैरती ( अल्मोड़ा )। निकटवर्ती गैराड़ में निर्माणाधीन मेरा गांव मेरी सडक का पांच सौ मीटर और विस्तार किया जाएगा। इसकी व्यवस्था विधायक निधि से की जाएगी। क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी ने यहां ग्रामीणें केसमक्ष यह घोषणा की। विधायक श्री नेगी अपने क्षेत्र संपर्क अभियान के तहत गैराड़ पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा किविकास कार्यों को पारदर्शिता के साथ पूरी ईमानदारी से करने को वह कृत संकल्प हैं। गैराड़ के प्रधान हेम चंद्र द्वारा मेरा गांव मेरी सड़क का विस्तार किये जाने की मांग को स्वीकार करते हुए विधायक ने कहा कि पांच सौ मीटर इस मार्ग का विस्तार विधायक निधि से करा दिया जाएगा। इस पर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष विन्देश्वरी पांडेय, महेश चंद्र आर्य, डां.ललित पांडेय, उमेद सिंह नेगी, महेश पांडेय एवं चंदन भंडारी आदि मौजूद थे।

### एसएसबी ने किया पौधरोपण



रानीखेत। सशस्त्र सीमा बल सीमान्त मुख्यालय रानीखेत द्वारा दरदराज क्षेत्रों में पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसबी के जवानों ने यहां से करीब 85 किमी. दूर ग्राम रोहेडा धुधलिया (नागचला ) वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। एसएसबी के डीआईजी मनमोहन काण्डपाल एवं एके सिंह ने मिलकर बल के जवानों के साथ पौधरोपण किया। इस दौरान ग्रामीणों से रोपे गये पौधों की देखभाल करने की अपील की गई। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में एसएसबी के अधिकारी व जवानों के साथ ही वन विभाग की पौधरोपण में भागीदारी सराहनीय रही। एसएसबी की ओर से इस माह में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बहुपयोगी हजारों पौधों का रोपण किया जा चुका है। पौधरोपण के दौरान उप कमांडेंट सत्येन्द्र कुमार यादव, पीके नाथ सहायक अभियन्ता, नरेन्द्र कुमार सहायक कमांडेंट, उमेश चन्द्र पान्डे रेंजर गैरसैण रेंज, प्रेम सिंह नेगी वन दरोगा समेत कई लोग मौजूद रहे। सरपंच जगदीश कोहली व वार्ड मेम्बर श्रीमती मदली देवी ने पौधरोपण में सहयोग दिया और पौधों की देखभाल किये जाने की बात कही। इस दौरान तेजपात, बांज, देवदार, उतीस जैसे कई बहुपयोगी पौधे रोपे गये।

# निराश्रितों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतें: रेखा

राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्या को कोविड बचाव का विशेष

प्रोबेशन अधिकारियों के साथ इत्यादि स्थलों पर स्टॉफ की ट्रेनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/जूम एप के में संवेदनशीलता के विकास के

माध्यम से केन्द्र एवं राज्य पोषित लिए क्षमता विकास कार्यक्रम

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचा. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी निर्देश

ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उत्तर उजाला ब्यूरो देहरादुन। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग

### सूचना

रिलायंस कंपनी की पालिसी के अभिलेखों में मेरा नाम मीनाक्षी देवी दर्ज हो गया है। जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मीनाक्षी जोशी है। मुझे अब मीनाक्षी जोशी नाम से ही जाना पहचाना लिखा व पढ़ा जाय। मीनाक्षी जोशी, ग्राम पलसौ, बनलेख, पोस्ट बनलेख जिला

### सूचना

हमारी फैक्ट्री भ्रामरी स्टील्स प्रा. लि., नई मण्डी गेट, बरेली रोड हल्द्वानी के निम्नलिखित फार्म वास्तव में खो गये हैं। इन फार्मों का प्रयोग अवैध माना जायेगा। Form 16-UK VAT M 2012 2050396, 2. UK VAT M 2012-2648234, 3. UK VAT M 2012-6324709 व 4. UK VAT M 2012-6324711 FORM F- 1. UK VAT F-2007-094210, FORM 'XI'- UA VAT A 2006-22619 व UA VAT-A-2006-22620, OC Stamp-OCUK/AA-2008-1700633, OCUK/AA-2008-1700634 OCUK/AA-2008-1700635

### 🚺 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड दूरभाष: 05947-269500; फैक्स: 05947-275315 ई-मेल: compliance officer@indiantycols.com वेबसाइटः www.indiaglycols.com

सीआईएन: L24111UR1983PLC009097 रतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीकरण बाध्यताएँ एवं कटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 ।हपठित विनियम 47 के अनुसरण में एतदद्वारा सूचित किया नाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2020 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की

जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त 30 जून, 2020 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर विचार कर अनुमोदन किया जाएगा। यह सचना कम्पनी की वेबसाइट www.indiaglycols.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड स्थान : नोएडा, उ.प्र.

**Tender Documen** 

can be obtained/

submitted at

Project Unit

BRIDCUL

**Project Manager** 

BRIDCUL

ट्रस्ट की ओर से श्री राम जन्म भूमि

जलाकर मनाई खुशी हरिद्वार। मां मनसा देवी मंदिर

पसार किया जाय।

पूजन की खुशी में गुरुवार को दीये जलाने के साथ ही लड्डुओं का प्रसाद बांटा गया। भगवान श्री राम के जयघोष लगाए गए। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल शर्मा ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम का मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रख दी है। सैंकड़ों सालों से कम्पनी सचिव जो सपना हिंदू देख रहे थे वह अब पूरा हो गया। गुरुवार को मां मनसा देवी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड इकाई कार्यालयः अवस्थापना मवन, राजकीय आई०टी०आई० निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 की गई। साथ ही 21 सौ दीये जलाकर दीपावली मनाई गई। उधर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के दिन शिवालिक नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में अनेक रामभक्तों ने शिव मंदिर सेक्टर 4 में रामोत्सव एवं दीपोत्सव पूरे उगास व आनंद के साथ मनाया। मंदिर में स्थित श्री राम दरबार के सम्मुख धार्मिक विद्वानों के द्वारा मानस के बालकांड का पाठ विधि-विधान से संपन्न हुआ। जिसके उपरांत भगवान श्रीराम को भोग लगाकर आरती की गयी। इसके उपरांत सभी राम भक्तों ने 1100 दीपक एवं झालरों से पूरे मंदिर को सजाया तथा फुलझड़ी व अनार भी

जलाकर दीपावली मनाई। राजीव शर्मा

द्वारा 108 राम नाम ॲकित केसरिया

धर्मध्वजाएं वितरित की गयी।

# दी गयी। स्टाफ एवं सहवासनियों अधिकारी अंजना गुप्ता एवं कार्यक्रम की प्रक्रिया अभी जारी है। मनसा देवी ट्रस्ट ने दीये कई बार सचिन से भी आगे निकले द्रविड्

प्रायोजित प्रोग्राम में पिथौरागढ जो मक्खनपुर गांव में किराए पर रह

पाना एक बड़ी चुनौती होता था।

शायद सचिन तेंदुलकर की तरह गिफ्टेड खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन एक महान खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी दम चाहिए। आप जानते प्रदर्शन दे दिया, इसके बावजूद आप टीम के बेस्ट बल्लेबाज नहीं हैं और इससे आपका मनोबल नीचे जा सकता है

सचिन से भी आगे

निकल

जाते थे

बनाई। राजा ने कहा, राहुल द्रविङ् हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ 🥙 लेकिन राहुल द्रविड् को इसका श्रेय देना पड़ेगा कि कई बार वह

नई दिल्ली। राहुल द्रविड़ को मुश्किल पिच पर बहुत अच्छे भारतीय क्रिकेट की दीवार कहा जाता बल्लेबाज थे. क्योंकि उनका डिफेंस था। मजबूत तकनीक, संयम, धैर्य बेहद मजबूत था और अति महत्वपूर्ण और अथक परिश्रम की मिसाल रहे नंबर 3 पोजिशन पर बल्लेबाजी करने द्रविड़। भारत ने सर्वकालिक महान के लिए उनका ऐटिट्यूड भी शानदार नंबर तीन बल्लेबाजों में शुमार द्रविड था। इसके अलावा वह कीपिंग भी के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। कर लेते थे। राजा ने कहा, राहुल द्रविङ् जब क्रीज पर आते थे तो द्रविङ् का आप हमेशा सम्मान करते गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट कर हैं। किसी खिलाड़ी की महानता का पता ड्रेसिंग रूम में चलता है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व टीम को लगता है कि मुश्किल हालात कप्तान रमीज राजा ने द्रविड़ के में आप उन्हें निराश नहीं करेंगे तो यह करियर को याद किया और उनके बहुत मायने रखता है। भले ही आप

खेल की तारीफ की। राजा ने कहा कि वहां 30 या 50 रन ही बनाएं। द्रविड द्रविड़ ने कई शानदार पारियां खेलीं ने भारत के लिए 164 टेस्ट मैच खेले और टीम में सचिन तेंदुलकर जैसे जिसमें उन्होंने 13288 रन बनाए। बड़े नाम के बावजूद अपनी जगह उनका बल्लेबाजी औसत 52.31 का

रहा। ३४४ वनडे .इंटर नैशानल मैचों उन्हों ने 39.16 के औसत से 10889 रन

### 🗣 🕃 🎟 🏿 🎕 राशिफल 🖭 🕾 🕃 🕃 🛎

मेष : स्वभाव में उग्रता रहेगी। संयम रखें। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता रहेगी। निराशा पैदा हो सकती है।

वृषभ : कार्य आत्मविश्वास के साथ करें। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। कला के क्षेत्र में प्रतिभा दर्शाने का मौका मिलेगा। मिथुन : नई योजनाओं को अमल में लायेंगे। सरकार की तरफ से

अच्छा फल मिलेगा। दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। कर्क: नकारात्मक सोच पैदा होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक के साथ मनमुटाव हो सकता है। संतोष की भावना जागेगी।

सिंह: त्वरित निर्णय ले सकेंगे। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन ठीक रहेगा। कन्या: तकरार की आशंका है। चिंता में दिन व्यतीत होगा। काम बिगड़ने की आशंका रहेगी। आकस्मिक धन खर्च होगा।

**तुला :** सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आय वृद्धि का योग है। अनुकूल वातावरण रहेगा। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। वृष्टिचकः कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। गृहस्थ जीवन में आनंद होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मान-सम्मान मिलेगा।

धनु : थकान और बेचैनी हो सकती है। स्वास्थ्य नरम-गरम हो सकता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। मकर : नकारात्मक विचारों से दूर रहें और खान-पान पर ध्यान दें।

अचानक धन खर्च होगा। प्रशासनिक बुद्धिमत्ता दिखेगी। कुंभ : मित्रों के साथ भ्रमण का अवसर आएगा। वाहन प्राप्ति के योग हैं। संबंध अच्छे रहेंगे। दिन आनंददायक रहेगा।

मीन : कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। सुख-शांति का वातावरण रहेगा। स्वभाव में उग्रता रहेगी। वाणी पर संयम रखें।

### संस्थापकः स्व.जी.एस.भण्डारी

पंजी.सं. आर.एन.32942/77 website: www.uttarujala.com

जी.एस.भण्डारी एण्ड को. के लिए प्रकाशक मद्रक डा.उषा किरन भण्डारी द्वारा उत्तर उजाला प्रेस, उजाला नगर बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित व भण्डारी भवन, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित। मुख्य सम्पादक : डा. उषा किरन भण्डारी फोन:हल्द्वानी 252129, 252975 नैनीताल: 236154,

E-mail: uttarujala7@gmail.com uttarujala@rediffmail.com

### 18% GST Tehri (Uttarakhand) Dehradun Additional Civil works at Govt. Polytechnic Rs. 2000.00 Project Unit Jassowala, Vikasnagar (Dehradun), 15.50 46500.00 BRIDCUL 18% GST Dehradun The tender documents can only be purchased from the office of the respective Project Manager on all orking days from 07.08.2020 to 20.08.2020. The cost of tender document amounting to Rs 2000+18% GST,

will be paid while purchasing the tender documents, by cash or Demand Draft. The tenders should reach the

office latest by 1500 hours on 20.08.2020 and the technical bid shall be opened on same day at 1530 hours in

से संबंधित क्षेत्र।

BRIDCUL (ब्रिडकुल)

टैलीफैक्स– 0135–2522941, ई–मेल - pmbridcul.dun@gmail.com, CIN No. U45203UR2008SGC032591

Bid

Security /

EMD (In Rs.)

54000.00

Tender

Form

s. 2000.0

NIT (Notice Inviting Tender)-2<sup>nd</sup> Call

two separate envelops (Technical and Financial) simultaneously from Contractors Empanelled with

On behalf of Managing Director, BRIDCUL, sealed Item Rate Tenders with Post Qualification, are invited

Cost

(In lac)

18.06

presence of tenderers who choose to be present Ref No:-458 /BRIDCUL-233/20 Dated: 06.08.2020

BRIDCUL in Civil work Category-III (upto 2 Crore):-

Construction of Tin Shed. Toilet Renovation &

CCTV works at Tipri Madan Negi Ropeway,

Name of Work